



Analysis Report

State Level Water Analysis Laboratory, U.P. Jal Nigam (Rural)
6, Rana Pratap Marg, Lucknow.

Report No | Chemical Test/123139(1)/2022-2023 | Date | 10.08.2023 | S.No | | Page No | 1 | page 1/1

Office Name and Address | Sardar Patel Gurukul Academy (Sarvjan Vikas Samiti), Bakshi Ka Talab, Lucknow
Ref Letter No & Date | 03.08.2023

District | Lucknow
Gram Panchayat | | Block/Area | Bakshi Ka Talab
Habitation | | Village/Ward | |
Water Source | Borewell | Location | Air Force Station Road, Bakshi Ka Talab
Quality of Sample | 500ml + 250ml | Sample No. | 123139
Receiving Date | 03.08.2023 | Date of S.C. | 03.08.2023
Sample Depositer | Shri Kamal Kumar | S. Collector | Shri Kamal Kumar
Analysis Start Date | 04.08.2023 | Analysis Completion Date | 09.08.2023

Environmental Condition
Temperature | 22 ± 5 °C | Relative Humidity | Upto 70%

S.No.	Analysed parameters	Unit of Measurement	Observed Value	Specified Values as per IS 10500:2012		Ref. Method of Analysis	
				Acceptable Limit	Permissible Limit in absence of alternate source		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Boron	mg/L	0.008	0.5	1.00	APHA 23rd edition, 2017 (Part 3125) ICP-MS Method	
2	Aluminium	mg/L	0.00	0.03	0.2		
3	Total Chromium	mg/L	0.00	0.05	0.05		
4	Magnesium	mg/L	15.62	30	100		
5	Calcium	mg/L	5.62	75	200		
6	Nickel	mg/L	0.00	0.02	0.02		
7	Manganese	mg/L	0.003	0.1	0.3		
8	Copper	mg/L	0.0003	0.05	1.5		
9	Zinc	mg/L	0.006	5.00	15.00		
10	Barium	mg/L	0.28	0.7	0.7		
11	Silver	mg/L	0.00	0.1	0.1		
12	Cadmium	mg/L	0.00	0.003	0.003		
13	Lead as Pb	mg/L	0.0001	0.01	0.01		
14	Total Coliform	CFU/100 mL	0.00	0	0		APHA 23rd edition 2017, (Part 3125) ICP-MS Method
15	E coli	CFU/100 mL	0.00	0	0		APHA 23rd edition 2017, 9222 -B

- Note
1. This Certificate refers only to the particular sample(s) submitted for testing.
 2. This certificate shall not be reproduced, except in full, unless written permission for the publication of an approved abstract has been obtained from Head of Laboratory.
 3. The test results reported in this certificate are valid at the time of and under the stated conditions of measurements.
 4. Sample will be stored up to 15 days (in case of non perishable items only) from the date of issue of tests reports unless otherwise specified.

Abhishek Singh
10/08/2023
{Abhishek Singh}
Lab Technician

Abhishek Singh
Principal

Authorized Signatory
Anil Kumar
(Anil Kumar)
Technical Manager



End of Test Report

Laboratory Contact details: Email- uplabtesing@gmail.com, Mob-9473942098

Sardar Patel Gurukul Academy
Lucknow
Affiliation No.-2132338

Anil Kumar
Manager
Sardar Patel Gurukul Academy
Lucknow

कार्यालय - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ

पत्रांक: 1347/78/219

दिनांक: 04.05.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सरदार पटेल गुरुकुल एकेडमी, एयरफोर्स स्टेशन रोड, बक्शी का तालाब, लखनऊ में स्वास्थ्य एवं सफाई की समुचित व्यवस्था है, शौचालय एवं मूत्रालय साफ एवं स्वच्छ पाये गये।

अतः स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।


आज दिनांक 04.05.2019 को मैंने आपके भेटे

(सरदार पटेल गुरुकुल एकेडमी) निरीक्षण


• किमा वामा जिसमें स्वास्थ्य एवं सफाई की समुचित व्यवस्था है, शौचालय एवं मूत्रालय साफ एवं स्वच्छ पाये गये। सफाई से सम्बन्धित कार्य कार्य सन्तोषजनक है।

स्वास्थ्य अधीक्षक
विशेष प्रबन्धी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
बक्शी का तालाब, लखनऊ

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
बक्शी का तालाब,
लखनऊ


24.6.23

अधीक्षक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
बक्शी का तालाब, लखनऊ



Principal
Sardar Patel Gurukul Academy
Lucknow
Affiliation No.-2132338



Manager
Sardar Patel Gurukul Academy
Lucknow

कार्यालय - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ

पत्र संख्या BKT/96/2020

दिनांक 10/08/2020


अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सरदार पटेल गुरुकुल एकेडमी, एयरफोर्स स्टेशन रोड, बक्शी का तालाब, लखनऊ में पेयजल की समुचित व्यवस्था है। छात्र-छात्राओं के पेयजल के लिये आर० ओ० वाटर कूलर लगे हुये हैं।

अतः पेयजल के प्रति अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

आज दिनांक 24.6.23 को सरदार पटेल गुरुकुल एकेडमी एयरफोर्स स्टेशन रोड बक्शी का तालाब में जाकर जाँच किया गया जिसमें इनके यहाँ पेयजल की समुचित व्यवस्था है छात्र-छात्राओं के लिए पेयजल के लिए आर० ओ० वाटर कूलर भी लगे हुये हैं।

स्वास्थ्य अधीक्षक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
बक्शी का तालाब
चिकित्सा प्रमारी 10/08/2020
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
बी० के० टी०-लखनऊ


24/6/23
अधीक्षक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
बी० के० टी०, लखनऊ



Principal
Sardar Patel Gurukul Academy
Lucknow



Manager
Sardar Patel Gurukul Academy
Lucknow